



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 17.03.2023

1.थाना सेक्टर 20 पुलिस व जनता के सहयोग से पैदल जा रही महिला से मोबाइल फोन छीनने वाले मोटरसाइकिल सवार 02 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस बरामदा।

**घटनाक्रम का विवरण --** दिनांक 16.03.2023 को एक महिला से डीएम चौराहे से सेक्टर 19 नोएडा की ओर जाते समय स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल नं. DL6SBC2090 पर सवार दो बदमाशों द्वारा महिला का मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया गया। जिस पर महिला के चिल्लाने पर गश्त कर रही थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा एवं जनता के व्यक्ति मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री रामपाल निवासी दिल्ली म0न0 -284, ब्लॉक-23 त्रिलोकपुरी दिल्ली के सहयोग से मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है।

**अपराध करने का तरीका --** अभियुक्तों द्वारा राह चलती महिला/पुरुषों से सुनसान व मौका पाकर मोबाइल छीनना।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण --**

- (1) संतोष कुमार पुत्र रामबाबू शर्मा निवासी ग्राम मुंडेरा थाना मोहदा जिला हमीरपुर हालपता जेजे कालोनी सेक्टर 16 नोएडा उम्र 22 वर्ष।
- (2) विशाल कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम खेडा सुल्तान थाना कांधला जिला शामली हालपता जेजे कालोनी सेक्टर 16 नोएडा उम्र 23 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण --** मु0अ0सं0 114/23 धारा 393 भादवि थाना सेक्टर-20 गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी का विवरण --** लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस नं. DL6SBC2090 बरामदा।

**2. थाना बादलपुर पुलिस द्वारा, जाली नोट छापने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 38,220/- रुपये (200, 100, 50 व 20 रुपये के जाली नोट) के जाली नोट बरामद।**

**घटनाक्रम का विवरण--** दिनांक 16.03.2023 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा जाली नोट छापने वाले एक अभियुक्त अब्दुल रकीब पुत्र नेक मोहम्मद निवासी ग्राम असनगर थाना कांति जिला मुजफ्फरपुर बिहार हालपता जी-156 सुनील डेढा का मकान जी ब्लक गाजीपुर दिल्ली को साईं होटल के पास जीटी रोड छपरौला से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 38,220/- ₹ के जाली नोट तथा एक प्रिन्टर बरामद।

**अभियुक्त का विवरण--** अब्दुल रकीब पुत्र नेक मोहम्मद निवासी ग्राम असनगर थाना कांति जिला मुजफ्फरपुर बिहार हालपता जी-156, सुनील डेढा का मकान, जी ब्लॉक गाजीपुर नई दिल्ली।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण--** मु0अ0सं0 092/2023 धारा 489ए/489बी/489सी/489डी भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।

#### **बरामदगी का विवरण--**

- 1- अभियुक्त के कब्जे से 200/-₹ के 55 नोट जिनके नम्बर 9FR678643 के 29 नोट व नम्बर 5AK526682 के 26 नोट (कुल 11000/-₹)
- 2- 100/-₹ के कुल 250 नोट जिनके नम्बर 9AA180578 के 130 नोट व नम्बर 4AC313243 के 120 नोट (कुल 25000/- ₹)
- 3- 50/-₹ के कुल 02 नोट जिनके नम्बर 3PP137925 व 1PT547035 (कुल 100/-₹)
- 4- 20/-₹ के कुल 106 नोट जिनके नम्बर 41R654212 का 01 नोट व नम्बर 88B727972 के 02 नोट व नम्बर 25C686348 के कुल 32 नोट व नम्बर 57E537237 के कुल 36 नोट, नम्बर 45H371083 के कुल 35 नोट (कुल 2120/-₹)।
- 5- कुल 38,220/- ₹ के जाली नोट बरामद ।
- 6- एक प्रिन्टर(HP) कम्पनी का बरामद ।